



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 498) पटना, मंगलवार, 21 अप्रील 2015

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना
13 अप्रील 2015

सं0 भा०व०से०(स्था०)-17/2011 (खण्ड)-1203/प०व०-श्री अभय कुमार द्विवेदी, भा०व०से० का स्थानान्तरण विभागीय अधिसूचना संख्या-429 दिनांक 10.02.2015 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पद पर किया गया था। समीक्षा के क्रम में यह स्थानान्तरण आदेश सिविल सेवा बोर्ड की अनुशंसा से भिन्न पाये जाने की स्थिति में कारण की अस्पष्टता के फलस्वरूप इसे भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर०-69 (ई०) दिनांक 28.01.2014 के द्वारा संशोधित नियम-2 (क) (5) के प्रतिकूल माना गया।

अतएव अधिसूचना संख्या-429 दिनांक 10.02.2015 को संशोधित करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की अनुशंसा के अनुरूप श्री अभय कुमार द्विवेदी, भा०व०से० को वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 498-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>